

प्रेस नोट
जनपद मीरजापुर ।

दिनांक: 06.06.2022

थाना पड़री पुलिस द्वारा 08 वर्ष से फरार चल रहा (50000/- ₹ का ईनामिया) हत्या के अभियोग का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.06.2022 को थानाध्यक्ष माधव सिंह मय हमराह तथा क्राइम ब्रांच व सर्विसांस टीम के निरी० श्री सतेन्द्र यादव प्रभारी व स्वाट प्रभारी उ०नि० श्री राजेश जी चौबे तलाश वांछित सत्यापन संदेही/आरोपी से मय गिरफ्तार शुदा एक नफर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुसम्मी ओम सिंह पुत्र लाल बिहारी सिंह निवासी ग्राम धनही थाना पड़री जनपद मीरजापुर सम्बन्धित मु०अ०सं०- 571/14 धारा 302/307/504 भा०द०वि० सूचना पर ग्राम धनही स्थित संदेही ओम सिंह उपरोक्त के बारे में ग्रामवासीयो से पूछताछ की गयी तो ग्रामिणो द्वारा बताया गया कि यह ओम सिंह पुत्र स्व० लाल विहारी सिंह नि० ग्राम धनही थाना पड़री जनपद मीरजापुर ही है जो लगभग 8 वर्षो से फरार थे हम सभी लोग भली भाँती जानते व पहचानते है। अभियुक्त ओम प्रकाश सिंह थाना पड़री पर पंजीकृत मु०अ०सं० 571/14 धारा 302/307/504 भादवि से सम्बन्धित वांछित व पुरस्कार घोषित अभियुक्त है आरोपी को हिरासत पुलिस में समय 06.55 बजे दिनांक 06.06.2022 को लिया गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्यांचल परिक्षेत्र मीरजापुर द्वारा 50 हजार ₹ का ईनाम घोषित किया गया।

घटना विवरण-

दिनांक 02.10.2014 को रात्रि में वादिनी अपने पति बृजराज सिंहए बेटा आंचल सिंह व बेटा सर्वजीत तथा रणजीत सिंह के साथ गांव में रामलीला देखने जा रही थी कि रात्रि 09.32 बजे बेलव रेलवे पुल के पास पहुंचे थे कि अभियुक्त ओम प्रकाश द्वारा व अन्य लोग पुरानी रंजिश को लेकर गाली गुप्ता देते हुए वादिनी के पति को गोली मार दिये तथा सर्वजीत के पैर मे गोली लग गयी। वादिनी के पति को गोली लगने से मौके पर मृत्यु हो गयी टार्च की रोशनी से वादिनी ने अभियुक्तो को पहचाना था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

ओम सिंह उर्फ श्री ओम सिंह पुत्र स्व० लाल बिहारी सिंह ग्राम धनही थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास

मु०अ०सं० 571/14 धारा 302/307/504 भादवि बनाम ओम सिंह उर्फ श्रीओम सिंह पुत्र स्व० लाल बिहारी सिंह उपरोक्त

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय

थाना पड़री अन्तर्गत ग्राम धनही से दिनांक 06.06.2022 को समय 06.55 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष माधव सिंह थाना पड़री मीरजापुर
2. उ०नि० आशुतोष सिंह थाना पड़री मीरजापुर
3. का० हरेराम यादव थाना पड़री मीरजापुर
4. का० देवेन्द्र यादव थाना पड़री मीरजापुर
5. हे०का० चालक विरेन्द्र सिंह यादव

स्वाट टीम

6. निरी० सतेन्द्र यादव प्रभारी टीम
7. उ०नि० श्री राजेश जी चौबे प्रभारी स्वाट टीम
8. हे०का० बृजेश सिंह सर्विलांस
9. हे०का० वीरेन्द्र सरोज स्वाट टीम
10. हे०का० राज सिंह राणा स्वाट टीम
11. हे०का० राजेश यादव- स्वाट टीम
12. का० संदीप राय स्वाट टीम
13. का०चालक सर्वजीत सिंह स्वाट टीम
14. का० मनीष सिंह
15. का०चालक प्रभुनारायण सिंह
16. का० नितिल सिंह सर्विलांस टीम

नोट- पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर को अथक प्रयास तथा पुलिस टीम द्वारा किये गये शीघ्र अनावरण पर उत्साह वर्धन हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्यांचल परिक्षेत्र मीरजापुर द्वारा रूपये 50000/- घोषणा की गयी।

